

पत्रांक :- 04/ NULM-02/17.....1514/न0वि0एवं आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

संयुक्त सचिव-सह-उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :- 19/06/18

विषय :- दिनांक 21 जून 2018 को अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लाभार्थियों के बीच कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंग- MoHUA का पत्रांक 13011/2017-UPA-I दिनांक 22 मई, 2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि अन्तराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिनांक 21 जून, 2018 को कार्यक्रम आयोजित किये जाने का परामर्श दिया गया है। पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि निकाय स्तर पर अंतराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाय तथा कार्यक्रम से संबंधित तस्वीर के साथ प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि MoHUA को आयोजन से संबंधित जानकारी दी जा सके।

अनुलग्नक :- यथोक्त

विश्वासभाजन

संयुक्त सचिव-सह-उप निदेशक
नगर विकास एवं आवास विभाग


I/4855/2018

58

F.No.- 13011/25/2017-UPA-I
Government of India
Ministry of Housing & Urban Affairs
UPA-I Section

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 22 May, 2018

R.N.A



Subject: Action Plan for celebration of International Day of Yoga on 21st June, 2018-reg.

As you are aware, 21st June is being observed as International Day of Yoga every year since 2015, when at the initiative of Hon'ble Prime Minister Sh. Narendra Modi, the United Nations General Assembly took a historic decision to declare 21st June as the International Day of Yoga (IDY). The fourth Yoda Day will thus be celebrated on 21st June, 2018.

To commemorate the occasion, directions may be given to State/city officials working for the DAY-NULM Mission to organise various activities. It is suggested that the following activities, *inter alia*, may be undertaken by the various units of DAY-NULM:

1. City /State Mission Management Units may display Hoardings of celebration of IDY-2018.
2. Yoga programmes may be organised in order to create awareness about the benefits of yoga for good health and stress management for Self Help Groups and their federations. Resource persons/NGOs with effective communication skills in local languages may be engaged for the same.
3. Skill Training Centres of the States may be advised to organise educational programmes for popularising yoga amongst the youth.
4. Yoga sessions may be organised in Shelter Homes for the inmates.
5. Competitions may be organised where candidates may take part in Painting, Poetry and other creative activities in respect of YOGA.
6. Suitable Printed and Audio Visual Media may be used to propagate the IDY-2018.

You are advised to incorporate any or all of the suggestions given above as per local conditions and availability of funds under A&OE head to make the celebration of International Day of YOGA a successful event under DAY-NULM Mission.

A. Mittal

(Archana Mittal)
Director (NULM-I)
Tel: 23062127

Handwritten notes on the left side of the page: 'US', 'Armita', '2m', '7.6.18', '1.6.18'.

Handwritten notes: '397/18', '1-6-2018'.

Handwritten notes: 'b', '20', '1400', '04/6/18', '03', '07/06/18'.

Handwritten notes: '481104-03', 'Rami', '07/06/18', '1372', 'PMC', '08-06-18'.